

संजौली कॉलेज में 9,10 अगस्त को गोल्डन जुबली
9अगस्त को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री करेंगे शिरकत, 10 को विक्की चौहान के साथ झुमेंगा कॉलेज



राजधानी शिमला स्थित उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र राजकीय महाविद्यालय संजौली में आगामी 9 एवं 10 अगस्त को गोल्डन जुबली का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 9 अगस्त को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी मुख्य अतिथि व शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ चंद्र भान मेहता ने पत्रकारों से यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि विशेष रूप से स्थापना वर्ष 1969 से अब तक महाविद्यालय से शिक्षित अपने सभी विद्यार्थियों को समर्पित इस कार्यक्रम में इस सत्र के होनहार छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत अनेक रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से महाविद्यालय से जुड़े सभी पुराने विद्यार्थियों का एक मंच पर मिलना इस आयोजन के मुख्य आकर्षण में शामिल हैं। कार्यक्रम में पिछले पचास वर्षों के दौरान महाविद्यालय से दीक्षित सभी होनहार व जीवन के उत्कृष्टतम लक्ष्यों को हासिल कर सफलता की ऊंचाइयों पर विराजमान अनेक प्रेरणास्रोत विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें शिक्षक, उपकुलपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक व सैन्य अधिकारी, चिकित्सक, समाज सेवी एवं वरिष्ठ राजनेता इत्यादि शामिल हैं।

वहीं 10 अगस्त को महाविद्यालय से 1997 में उत्तीर्ण हुए व आज प्रदेश व देशभर में अपनी गायकी के लिए प्रसिद्ध हिमाचली लोकगायक विक्की चौहान अपने गीत संगीत की छटा बिखेरकर वर्षभर चलनेवाले उत्सव का पटाक्षेप करेंगे। मुख्य रूप से वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों के लिए समर्पित इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा सभी प्रतिभागियों के लिए धाम का आयोजन भी किया जाएगा।

डॉ मेहता ने कहा कि 29 मई 1969 को प्रथम प्राचार्य के पदभार ग्रहण करते ही अस्तित्व में आए संजौली महाविद्यालय ने पिछले पचास वर्षों में शिक्षण के क्षेत्र में अद्वितीय व उल्लेखनीय योगदान दिया है। स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर इस सत्र से महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई। इसके अलावा 29 मई को हवन कार्यक्रम और मार्च में फेट का आयोजन भी किया गया था।

